

थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.01.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के निकट पर्यवेक्षण में कबरई पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, प्रभारी थाना कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के उ०नि० राशिद अली द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 312/22 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामदास कुशवाहा पुत्र स्व० बिन्दा प्रसाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मुहल्ला राजीव नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को बांदा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राशिद अली
2. कां० सर्वेश कुमार निर्मल
3. म०का० प्रीती देवी

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामदास कुशवाहा पुत्र स्व० बिन्दा प्रसाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मुहल्ला राजीव नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **17.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **80** वाहनों के ई-चालान किये गये ।

